

विद्या- भवन, बालिका विद्यापीठ, लखीसराय

नीतू कुमारी, वर्ग- पंचम, विषय- हिंदी व्याकरण

दिनांक – 22-05-2021 एन.सी.ई.आर.टी. पर आधारित

पाठ-3 शब्द विचार

सुप्रभात बच्चों,

पिछली कक्षा में आपको अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद के बारे में जाने आज आपको उसी पाठ से उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं इसके बारे में जानेगे ,जो इस प्रकार है-

उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं---

शब्द

तत्सम तद्भव देशज विदेशज

तत्सम शब्द-वह शब्द जो मूलतः संस्कृत के हैं और हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे-कण घृत, अग्नि, सांप आदि।

तद्भव शब्द--संस्कृत के वे शब्द जो कुछ बदलते हुए रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे- घी, आग, सांप आदि।

कुछ प्रमुख तत्सम व तद्भव शब्द

तत्सम	तद्भव	तत्सम	तद्भव	तत्सम	तद्भव
चंद्र	चाँद	मयूर	मोर	हस्ति	हाथी
गृह	घर	दुग्ध	दूध	स्वर्ण	सोना
मातृ	माता	निद्रा	नींद	काक	काग
दंत	दाँत	उच्च	ऊँचा	वैर	बैर
भ्राता	भाई	कर्म	काम	रात्रि	रात

देशज शब्द-जो शब्द देश के विविध गोलियों से हिंदी में आए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं।

जैसे- पेट , रोटी , सड़क , सरपट, भोंदू ,चटपट ,बेटी, ईट , मिर्च

गाड़ी ,चुटकी, बिल्ली, फावड़ा ,थैला, टाट, गड़बड़ , झगड़ा , झोपड़ी

विदेशज शब्द --हिंदी में कुछ शब्द विदेशी भाषाओं से आ गए हैं और हिंदी में प्रचलित हो गए हैं, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं।

जैसे--इंजन, कॉलेज, डॉक्टर, टेलीविजन, बोटल, स्टेशन, साइकिल आदि।

बच्चों, दी गई अध्ययन- सामग्री को पूरे मनोयोग से पढ़ें तथा समझने का प्रयास करें।

गृहकार्य:-

दिए, गए प्रश्नों को हल कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें।

(क) शब्द किसे कहते हैं?

(ख) सार्थक शब्द किसे कहते हैं? सोदाहरण लिखें।

(ग)सही(✓) का निशान लगाओ-

1. वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है?

अक्षर () वाक्य() शब्द ()

2. इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है?

आग () मयूर () हस्त ()

3.'लीची'शब्द किस भाषा से लिया गया है?

अंग्रेजी () चीनी () पुर्तगाली()

आज इस पाठ का समापन हुआ।

